

Class Notes	
कक्षा : पाँचवीं	शीर्षक : पाठ 9 एक माँ की बेबसी
विषय : हिंदी	

पाठ 9

एक माँ की बेबसी

कठिन शब्द

1. पड़ोस
2. खिलौने
3. इशारों
4. भाषा
5. बातों
6. छटपटाहट
7. निहारती

शब्दार्थ

1. अदृश्य – जो दिखाई ना दे
2. अजूबा-अद्भुत
3. भिन्न – अलग

4. घबराना – डरना
5. छटपटाहट– परेशान, बेचैन
6. भयभीत – डरा हुआ
7. निहारना – देखते रहना
8. बेहतर – बढ़िया
9. बेबसी– परेशानी
10. झलकती - दिखाई देती

नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

प्रश्न1- यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था । फिर भी कविता 'अदृश्य पड़ोस' से शुरू होती है । इसके कई अर्थ हो सकते हैं? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है ?

उत्तर- यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता 'अदृश्य पड़ोस' से शुरू होती है । क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक - दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था । इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था ।

इसका अन्य अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा होगा ।

प्रश्न2- 'अंदर की छटपटाहट' उसकी आँखों में किस रूप में प्रकट होती थी ?

उत्तर- 'अंदर की छटपटाहट' उसकी आँखों में डर के रूप में प्रकट होती थी ।

प्रश्न3- जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस-किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है ?

उत्तर- जो बच्चा बोल नहीं सकता, वह इस आशंका से 'घबराहट' महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएँगे या नहीं या वह अन्य लोगों को अपनी बात किस प्रकार समझाएगा ।

प्रश्न4- 'एक माँ की बेबसी' कविता के कवि का नाम लिखिए ?

उत्तर- ' एक माँ की बेबसी' कविता के कवि श्री कुँवर नारायण हैं ।

+++++

निर्देश -1. लेखन कार्य साफ़ और सुंदर अक्षरों में लिखिए ।

2. कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न-उत्तर अपनी हिंदी कॉपी में लिखिए ।

उपरोक्त लेखन सामग्री घर में ही रहकर तैयार की गयी है ।

+++++

+